

NIIT Limited

Registered Office: Plot No 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram 122 001, (Haryana) India Tel:+91 (124) 4293000 Fax:+91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

CIN: L74899HR1981PLC107123

www.niit.com

February 3, 2024

The Manager BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Manager National Stock Exchange of India Ltd

Listing Department Exchange Plaza 5th Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E),Mumbai – 400 051

Subject: Submission of copies of newspaper advertisements for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisements of February 3, 2024 (Financial Express and Jansatta) for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours sincerely,
For NIIT Limited

Arpita B Malhotra Company Secretary & Compliance Officer

Encls: a/a

FINANCIAL EXPRESS

MORE THAN HALF OF GAZA RESIDENTS HOMELESS

Backs to the wall, Gaza fears Israeli assault on last refuge

NIDAL AL-MUGHRABI & MOHAMMED SALEM Gaza, February 2

ISRAELI FORCES SHELLED the outskirts of the last refuge on the southern edge of the Gaza Strip on Friday, where the displaced, penned against the border fence in their hundreds of thousands, said they feared a new assault with nowhere left to flee.

More than half of Gaza's 2.3 million residents are now homeless and crammed into Rafah. Tens of thousands more have arrived in recent days, carrying belongings in their arms and pulling children on carts, since Israeli forces launched one of the biggest assaults of the war last week to capture adjacent Khan Younis, the main southern city. If the Israeli tanks keep coming, "we will be left with two choices: stay and die or climb the walls into Egypt", said Emad, 55, a businessman and father of six, reached on a mobile phone chat app. "Most of Gaza's population are in Rafah. If the tanks storm in, it will be a massacre like never before during this war."

Israeli Defence Minister

TESLAIS RECALLING 2.2 mil-

lion vehicles, or nearly all of its

electric vehicles in the United

States, due to incorrect font

sizes on warning lights, which

increases the risk of a crash, the

National Highway Traffic

This is more than the 2.03

million vehicles Tesla recalled

in the United States two

months back, its biggest-ever

such move at the time, to

install new safeguards in its

Autopilot advanced driver-

NHTSA's scanner for its

autonomous driving aid that is

intended to enable cars to

steer, accelerate and brake

automatically within their

lane. The latest recall includes

vehicles across Tesla's various

NIIT

Tesla has been under the

assistance system.

(NHTSA) said on Friday.

Safety

Administration



ongoing Israeli air and ground offensive in Gaza.

Yoav Gallant said late on Thursnearby parts of Khan Younis day that troops would now turn have become a warren of to Rafah, which along with Deir makeshift tents clinging to the al-Balah just north of Khan Youwinter mud. Wind and cold nis is among the last remaining weather added to the misery, areas they have yet to storm in blowing tents down, flooding them and the ground between an almost four-month assault. them. "What should we do? We "We are achieving our missions in Khan Younis, and we will also live in multiple miseries, awar, reach Rafah and eliminate terstarvation, and now the rain," ror elements that threaten us," said Um Badri, a mother of five Gallant said in a statement. displaced from Gaza City, now living in a tent in Khan Younis.

As the only part of Gaza with access to the limited food and medical aid trickling across the border, Rafah and

we have ended up in." With phone service mostly

Now, our house is gone, and the

rainwater has flooded the tent

shut across Gaza, residents climbed a sandy berm at the border fence and crouched beside the razor wire hoping for an Egyptian mobile signal. Mariam Odeh was trying to get a message out to family still in Khan Younis, "to tell them we are still alive and not martyrs like the others".

'Pressure cooker of despair'

The United Nations says rescuers can no longer reach the sick and wounded on the battlefield in Khan Younis, and the prospect of combat reaching Rafah is almost unthinkable. "Rafah is a pressure cooker of despair, and we fear for what comes next," Jens Laerke, spokesperson for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, told a briefing in Geneva. The Gaza war was triggered by Hamas fighters who stormed across the border fence into Israel on October 7, killing 1,200 people and capturing 253 hostages, according to

Israeli tallies.

US imposes fresh sanctions over Iranian weapons

ARSHAD MOHAMMED & DAPHNE PSALEDAKIS Washington, February 2

THE UNITED STATES on Friday imposed sanctions targeting Iran's ballistic missile and drone procurement programs as well as officials it said were involved in hacking US infrastructure, as Washington looks to increase pressure on Tehran. The US Treasury Depart-

ment said in a statement on Fri $day it \, had \, imposed \, sanctions \, on \,$ four Iran- and Hong Kong-based companies involved in providing materials and technology to Iran's ballistic missile and drone programs as well as a Hong Kong-based firm for selling Iranian commodities to Chinese entities.The Treasury also said it placed sanctions on six officials of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corp's Cyber Electronic Command (IRGC-CEC) formalicious cyber activities against critical infrastructure in the United States and elsewhere.

Iran's mission to the UN in New York and China's embassy in Washington did not immediately respond to requests for comment. —REUTERS FROM THE FRONT PAGE

Byju's leadership rallies behind Raveendran

"THE SUCCESS OF the rights issue will ensure that we have sufficient operational capital to fund our short-term needs from March onwards," the email said.

"The company is gladdened by the support received by a wide section of its shareholders. The criticality of the rights issue has been shared with all shareholders, with capital being pivotal for a successful turnaround. Unfortunately, the company and our employees are paying the price for a standoff triggered by some investors," Byju's said. It said the company has not had any external investor funding for nearly two years apart from the founder infusing over \$1 billion and this is a reason for it launching a rights issue as a quick and equitable way to raise money.

On Thursday, a group of investors, including Peak XV Partners and Prosus, said they sent the notice seeking the EGM after earlier requests to the Think and Learn board in July

company can successfully

migrate its business to other

Paytm users, founder and CEO

Vijay Shekhar Sharma on Friday

took to X and said the app would

continue to work beyond Febru-

ary 29. "To every Paytmer, your

favouriteappisworkingandwill

keep working beyond February

29 as usual. For every challenge,

there is a solution and we are

sincerely committed to serve

our nation in full compliance,"

Sharma wrote. However, it did

little allay investors' fears. Paytm

is now down about 75% from its

initial public offering price of

In a bid to soothe nerves of

banks,"they added.

put forward for the EGM to consider include a request for the resolution of governance, financial mismanagement and compliance issues; the reconstitution of the board of directors, so that it is no longer controlled by the founders of Think and Learn; and change in leadership of the company," the investors said in a statement. General Atlantic, Sofina, the Chan Zuckerberg Initiative, Owl Ventures and Sand Capital are among the signatories from the investor group. "We are deeply concerned about the future of stability of the company under

and December, 2023, were dis-

regarded."The resolutions being

statement on Thursday. At present, the company's board consists of founder and CEO Byju Raveendran, his cofounder and wife Divya Gokulnath, and his brother Riju Ravindran. Other members had quit

its current leadership and with

the constitution of the board,"

the investors had said in their

last year. Former State Bank of India chairman Rajnish kumar and former Infosys CFO TV Mohandas Pai are part of Byju's advisory council, which was formed last year in July after the resignation of Prosus, Peak XV and Chan Zuckerberg Initiative representatives from the board.

In a letter sent to the shareholders on January 29, Raveendran had informed them about the board's decision to raise capital through the rights issue. According to sources, Byju's has reduced the monthly burn rate of its core business to ₹50 crore and aims to achieve operational break-even in the next 2-3 months. Additionally, the company plans to reconstitute the board after completing the FY23 audit. Last week, the company posted its FY22 financials reporting a consolidated revenue jump of 118% from ₹2,428 crore in FY21 to ₹5,298 crore in FY22. Its losses also shot up from ₹4,564 crore in FY21 to ₹8,245 crore in FY22.

RBI crackdown: Paytm loses ₹17,000 crore in two days

Tesla recalls nearly all its vehicles in US nesses, it dilutes the network effects of Paytm's 'merchantafter Jan. 31 and owners will consumer'ecosystem and brand get notification letters credibility over time, unless the

> Tesla to pay \$1.5 million to settle waste lawsuit

Tesla has agreed to pay \$1.5 million to settle a lawsuit filed by 25 California counties earlier this week accusing the electric vehicle maker of mishandling hazardous waste at its facilities across the state.

The settlement was approved by Judge Jayne Lee on Thursday in San Joaquin County state court, just two days after the counties sued claiming Tesla improperly labeled waste, like paint materials, used batteries and diesel fuel, at its facilities across the state, and sent hazardous materials to landfills that cannot accept such materials.

RBI on Wednesday directed Paytm Payments Bank to stop

₹2,150 in 2021.

"WHILE THIS IS likely to have any customer accounts, wallets, only in partnerships with other less impact on its other busi- FASTags, and other instruments banks," said Sharma. "We offer after February 29. Also, it said the nodal accounts of One97 Communications and Pavtm Pavments Services are to be terminated at the earliest, in any case not later than February 29. In a blog post, the company

said the Paytm app and its services continue to remain operational and its merchant payment services will not be impacted. "We will be paytm

paytm

Wallet

with other banks, and not with the PPBL. The next phase of our journey is to continue to expand our

ments and financial

services business,

workingonly

acquiring services to merchants in partnership with several leading banks in the country and will continue to expand third-party bank partnerships," he added. Meanwhile, Morgan Stanley

> on Friday bought shares of One97 Communications for ₹244 crore through an open market transaction. Morgan Stanley, through its affiliate Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte - ODI, picked up shares of Noida-based Paytm's parent firm on the National Stock Exchange. According to the bulk deal data on the NSE, Morgan

Stanley Asia (Singapore) Pte

purchased 5 million shares

amounting to a 0.8% stake in Paytm. The shares were acquired at an average price of ₹487.20 apiece, taking the deal size to ₹243.60 crore.



models, including the Model S, Model X, 2017-2023 Model 3, Model Y, and 2024 Cybertruck

vehicles, the NHTSA said. "Warning lights with a smaller font size can make critical safety information on the instrument panel difficult to

read, increasing the risk of a crash," the NHTSA said.

"We used to wait for winter,

to enjoy watching the rain

from the balcony of our house.

Tesla began releasing an over-the-air software update on Jan. 23, free of charge, to fix the issue, the regulator said.

The software update will

the brake, park and antilock brake system (ABS). The Federal Motor Vehicle

visual warning indicators for

-REUTERS

Safety Standard No. 135 requires warning indicators for vehicles equipped with hydraulic brakes to be at least 3.2 millimeters, or an eight of an inch, high. The standard also requires contrasting colors for the written, visual warning and the background, with one of them being red.

Tesla's Cybertruck started receiving a software update to fix the issue for the units in production, the report added.

The recall is also the first for the new electric pickup truck model that Tesla started handing over to customers last November. The Austin, Texasbased automaker's stores and service centers will be notified

through mail, the report said.

—REUTERS accepting deposits or top-ups in

Era of rigid targets over, says finance secretary

"THE BUDGET PRESENTED yesterday was broadly in line with our expectations, though vith a slightly faster pace of eficit reduction, from when ve affirmed India's 'BBB-' ratng with a Stable Outlook in anuary," it said.

On Thursday, Moody's nvestor Services expressed a similarview,saying,"the envisaged fiscal consolidation will not alleviate pressures on (the country's) debt affordability amidst high current interest cates.."With any reference to he comments by the agencies, Somanathan noted that after he pandemic, the world is witessing major changes in the pproach towards public debt and on fiscal deficits, cited the examples of the US and Europe. "I think a more lynamic strategy for fiscal targeting is what will be required," ne said. "I think it is more mportant to adhere to realisic goals which consider all prevailing circumstances."

On the way forward for lebt and fiscal deficit manage nent, the finance secretary said, that's is matter for the ong run. "However, the government is clear and has been very consistent since 2021-22. That our first milestone is to bring the fiscal deficit below 4.5% by 2025 26. What is to be done thereafter is a matter which will become clear as we get near there," he said. The current fiscal glide

path, as reflected in the latest Budget, indicates that the Centre's debt-GDP ratio is projected to reduce from a high of 60.8% in the pandemic-hit 2020-21 to 56% in 2024-25 (BE). Historically, except in 2007-08, fiscal deficit has been over 3% for the Centre in the last 43 years since 1982-83, according to RBI data.

NIIT LIMITED

Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Web: www.niit.com Email: investors@niit.com

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended December 31, 2023

Consolidated Standalone Year ended Quarter ended Period ended Year ended Quarter ended Period ended Year to date Year to date Preceding Year to date Year to date Previous 3 months Preceding Previous 3 months Corresponding Corresponding figures for the year ended ended 3 months 3 months figures for the figures for the ended 3 months 3 months figures for the year current March ended ended ended ended ended previous December previous December **Particulars** Total Income from Operat Net Profit/(Loss) for the p Exceptional and/or Extra Net Profit/(Loss) for the pe Exceptional and/or Extra Net Profit/(Loss) for the pe Exceptional and/or Extrac discontinued operations) Profit/(Loss) after tax from Net Profit / (Loss) for the Exceptional and/or Extra Total Comprehensive Inco period [Comprising Profit/ (after tax) and other Com (Loss) (after tax)] Paid-up equity share capit (face value of Rs. 2 each Reserves excluding reval 10 Earnings/(Loss) Per Shar (not annualised, in Rs.) Continuing Operations - Basic Diluted **Discontinued Operation** Basic Diluted Continuing and Discon Basic 1.99 0.21 1.87 (0.51)Diluted 1.05 0.78 1.04 0.91 0.23 1.00 0.76 (1.28)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended). The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com.

The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 02, 2024.

Total Income from Operations represent revenue from operations.

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. Accordingly, the effect of demerger accounting is given in the financial results of previous periods in accordance with the accounting treatment prescribed in the Scheme and relevant accounting principles.

The Company has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items the allocations are approved by the Board.

Place: Gurugram

Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director

financialexp.epap.in

Date: February 02, 2024

increase the font size of the

Corporate Identity Number: L74899HR1981PLC107123

(Rs. in Millions, except per share data)

	31, 2023	September 30, 2023 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited (Restated) (Refer note 4)	period ended December 31, 2023 Unaudited (Refer note 4)	period ended December 31, 2022 Unaudited (Restated) (Refer note 4)	March 31, 2023 Audited (Refer note 4)	31, 2023 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited (Restated) (Refer note 4)	period ended December 31, 2023 Unaudited (Refer note 4)	period ended December 31, 2022 Unaudited (Restated) (Refer note 4)	Audited (Refer note 4
	Unaudited											
rations	851.75	814.06	931.87	2,291.28	2,812.02	3,412.50	319.89	417.00	427.28	997.63	1,322.75	1,574.46
period (before Tax, raordinary items)	183.46	114.31	148.82	333.25	192.64	169.15	148.01	106.11	21.21	273.26	(100.41)	(144.90)
period before tax (after raordinary items)	183.46	114.31	146.22	330.34	192.94	159.22	148.01	106.11	18.61	270.35	(100.11)	(154.83)
period after tax (after aordinary items) (before	151.43	107.21	167.92	284.37	208.07	111.17	138.29	104.02	40.33	257.98	(37.99)	(143.77)
om discontinued operations	(0.84)	(1.08)	(11.03)	(3.32)	(29.96)	(27.59)	(0.84)	(1.08)	(11.03)	(3.32)	(29.96)	(27.59)
e period after tax (after raordinary items)	150.59	106.13	156.89	281.05	178.11	83.58	137.45	102.94	29.30	254.66	(67.95)	(171.36)
come / (Loss) for the it/ (Loss) for the period emprehensive Income /	164.84	112.80	170.93	273.66	192.10	97.29	143.64	109.92	28.97	257.55	(57.28)	(161.10)
apital ch, fully paid)	270.02	269.45	269.06	270.02	269.06	269.14	270.02	269.45	269.06	270.02	269.06	269.14
valuation reserves	10 3	y				9,689.94						9,628.85
are (of Rs. 2/- each)	1.08 1.06	0.80 0.79	1.14 1.12	2.04 2.01	1.15 1.13	0.45 0.44	1.03 1.01	0.77 0.77	0.30 0.29	1.91 1.89	(0.29) (0.29)	(1.07) (1.07)
ions	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.08) (0.08)	(0.02) (0.02)	(0.22) (0.22)	(0.21) (0.21)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.08) (0.08)	(0.02) (0.02)	(0.22) (0.22)	(0.21) (0.21)
ontinued Operations	1.07	0.79	1.06	2.02	0.93	0.24	1.02	0.76	0.22	1.89	(0.51)	(1.28)

By order of the Board For NIIT Limited

New Delhi

मंदिर निर्माण से 500 साल का दर्द खत्म हुआ: धनखड़

नई दिल्ली , 2 फरवरी (एजंसी)।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के सभ्यतागत इतिहास का प्रतीक है। और इसने देश के 500 साल के दर्द को समाप्त कर दिया। धनखड़ ने यहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) सभागार में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनय) के सातवें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हए यह टिप्पणी की।

उपराष्ट्रपति ने कहा, 22 जनवरी को हमारे देश में जश्न का माहौल था जब अयोध्या धाम में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था। इस कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवसर पर 500 वर्षों का दर्द दर हो गया। धनखड ने छात्रों से देश की उपलब्धियों पर गर्व करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ 'राष्ट्र-विरोधी' विमर्श को 'बेअसर' करना युवाओं की जिम्मेदारी है।



धनखड़ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश ने इस पर खुशी जताई है। इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस बीच, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जेएनय देश भर के छात्रों के लिए विभिन्न अल्पकालिक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य इस साल ई-लर्निंग के क्षेत्र में प्रवेश करना है।

बद्दी में सौंदर्य प्रसाधन फैक्टरी में आग से एक की मौत

शिमला, २ फरवरी (ब्यूरो)।

सोलन जिले के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में एक सौंदर्य प्रसाधन फैक्टरी में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। इसमें एक की मौत व 31 लोग घायल बताए जा रहे है। अधिकारियों ने बताया कि फैक्टरी में 50 से अधिक लोग थे।

सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि नालागढ़ और आसपास के अन्य इलाकों से दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा है तथा आग बुझाने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि नालागढ़

नौसेना ने समुद्री

डाकुओं के कब्जे से

जहाज और चालक

दल को छुड़ाया

भारतीय नौसेना ने एक बार

फिर हिंद महासागर के इलाके में

समुद्री डाकुओं द्वारा किए जा रहे

एक वाणिज्यिक जहाज के

अपहरण के प्रयास को विफल

कर दिया है। इस बार घटना

सोमालिया के पूर्वी तट से जुड़ी

हुई है। नौसेना को पिछले

बुधवार को ईरान के ध्वज लगे

हए एक जहाज एफवी ओमारी

का सात समुद्री डाकुओं द्वारा

अपहरण कर उसके चालक दल

के 19 सदस्यों को बंधक बनाने

इस घटना में तत्काल

कार्रवाई करते हुए नौसेना का

आइएनएस शारदा युद्धपोत हरकत में आया और उसने ईरानी

जहाज की समुद्र में गहन तलाश

शुरू कर दी। इसके बाद जहाज

समेत चालक दल के सभी 19

पेश वकील ने मेटोपोलिटन अदालत के समक्ष तर्क दिया कि

कथित घटनाएं 2012 में हुई

थीं,जबिक इनकी शिकायत 2023

में दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष के

वकील की ओर यह दलील

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन

मजिस्टेट (एसीएमएम) प्रियंका

राजपूत के समक्ष तब दी गई, जब

सिंह और सह-आरोपी भारतीय

कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक

सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर

www.readwhere.com

की सूचना मिली थी।

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 फरवरी।

उपमंडल के बद्दी के झाड़माजरी में 'एनआर अरोमा कंपनी' के औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि घायल लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का दल मौके पर पहुंच गया है और चंडी मंदिर से सेना की दमकल गाड़ियां जल्द ही वहां पहुंचेंगी। जब आग लगी तो परफ्यूम फैक्ट्री के अंदर लगभग 50 लोग थे।' दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

रामसर संधि की महासचिव डा. मुसोंडा मुंबा मौजूद रही। (ब्यूरो)

सार्वजनिक सूचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

मानव जीवन के विकास में

आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका :

मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर झील के

किनारे शुक्रवार को विश्व आर्द्रभूमि

दिवस-24 समारोह आयोजित किया

गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

और विशेष अतिथि के रूप में

आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए बनाई गई

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ित सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17(4) के मामले में

डैन्क इंडिअर एलएलपी (एलएलपीआईएन : एएआई-9440) जिसका पंजीकृत पता : **268ए, पहली मंजिल,** हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली-110011

के मामले में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "**ढैन्क इंडिअर** एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से **"राजस्थान"** राज्य में बदलने की अनुमति मांगी गई है । एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। 268ए, पहली मंजिल, हरि नगर आश्रम,

आवेदक के लिए और उसकी ओर से डैन्क इंडिअर एलएलपी दिनांकः 03.02.2024 मुकुल तिवारी (नामित साझेदार) ढीपीआईएन: 07729120

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड फन सिनेमा के सामने, पीतमपुरा नई दिल्ली-110034

नई दिल्ली-110011

निगम कार्यालयः 55-56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021, फोनः 022-61884700 रजि. कार्यालयः 507, दलामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 CIN No.: U65999MH2004PTC144113

परिशिष्ट- IV नियम-s(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

चूंकि पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिमांड सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर वर्णित राशि 22.03.2019 **को** 76,64,655/- **रुपये (छहत्तर लाख चौसठ हजार छह सौ पचपन रुपये मात्र**) 23.03.2019 से भुगतान और/या वसूली तक भविष्य के ब्याज, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों के साथ की अदायगी करने के लिए उधारकर्ता व जमानतदार 1. श्री देवेन्द्र कुहार, पुत्र श्री जुगती राम, 2. श्रीमती सुरेखा, पत्नी श्री देवेन्द्र कुहार और 3. मेसर्स रॉयल गार्डन (मालिक श्री देवेन्द्र कुहार) को आमंत्रित करते हुए **दिनांक** 06.11.2019 को डिमांड सूचना जारी की गई। उधारकर्ता की वित्तीय संपत्ति/ऋण पंजीकृत डीड ऑफ असाइनमेंट दिनांक 29.03.2019 के माध्यम से पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडसइंड बैंक लिमिटेड से अर्जित किए गए थे। उक्त कार्य के अनुसरण में, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड ने उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में सभी अधिकार, स्वामित्व और सुरक्षा हित हासिल कर लिए हैं।

उधारकर्ता/ जमानतदार राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर उधारकर्ता/ जमानतदार एवं सामान्य जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमो 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन 31 जनवरी, 2024 ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ जमानतदार और सामान्य रूप से जनता को संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए एतदद्वारा सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि 22.03.2019 को 76,64,655/- रुपये (छहत्तर लाख चौसठ हजार छह सौ पचपन रुपये मात्र) 23.03.2019 से भुगतान और/या वसूली तक भविष्य के ब्याज, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों के लिए पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति परिसंपत्ति को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मौजा कालूपुर, आबादी के अंदर मायापुरी कॉलोनी जिसे मायापुरी कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, काकोरी रोड, रॉयल गार्डन के पीछे, सोनीपत. तहसील और जिला सोनीपत में स्थित खेवट नंबर 154, खत्ता नंबर 232, खसरा नंबर 934/139 मिनट (2–14) के अंतर्गत शामिल मकान की अचल रिहाशीय संपत्ति के सभी

तिथि: 03.02.2024 स्थानः सोनीपत (हरियाणा)

प्राधिकृत अधिकारी पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष

सेल्कोजेन थेरैपेयूटिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-57/बाई 3, सी ब्लॉक, डाक घर के सामने, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110095 में है, के मामले में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5), 30(6)

के मामले में

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली "से" "उत्तर प्रदेश राज्ये" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 16 जनवरी, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति ड्र क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

सी-57/बाई 3. सी ब्लॉक, डाक घर के सामने, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110095 कृत्ते एवं के लिये, सल्लोजेन थेरौपेयुटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

गौरव खरवा (निदेशक) तिथिः 03.02.2024 DIN: 08147487

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 में सार्वजनिक िकंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स. नई दिल्ली-110003 के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

मै. बीट एन नोट्स प्राईवेट लिमिटेड CIN:U22100DL2012PTC240044 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-42 (एलजीएफ) पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 आईएन में है, के मामले में

---आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' मे उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 2 फरवरी, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013(4) की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

> बोर्ड के आदेश र बीट एन नोट्स प्राईवेट लिमिटेड यतेन्द्र सिंह यादव शान्तनु यादव निदेशक DIN:03105734

निदेशक

DIN:02511352 तिथि: 02.02.2024 स्थानः नई दिल्ली

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) निगमित कार्यालय : 503 एवं 504, 5वां तल, जी-ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), Grihashakti मुंबई-400 051, महा., पंजीकृत कार्यालय : मेघ टॉवर्स, तृतीय तल, पुरानी सं. 307, नवीन सं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई - 600 095, तमिल नाड

अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ 15 दिवसीय ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न सूचीबद्ध अचल संपत्तियों (''प्रतिभृत परिसंपत्तियों''), जिनका अधिग्रहण, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (यहां इसमें इसके पश्चात् एसएमएचएफसी के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ("प्रतिभूत ऋणदाता") द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय यहां इसमें निम्नांकित तिथि एवं समय पर ''जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं'' आधार पर किया जायेगा, जो कि यहां इसमें निम्न तालिक में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से एसएमएचएफसी प्रतिभूत ऋणदाता को देय, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशियों तथा वसूलीकरण की तिथि तक इन राशियों पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु किया जायेगा।

आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (धराज) तथा धराज जमा करने की अंतिम तिथि के विवरणों का अंकन भी यहां इसमें नीचे दी गई तालिका में किया गया है :

2) भागीदारी का अनुरोध पत्र / केवाईसी प्रलेख / धराज के साक्ष्य, इत्यादि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 17–02–2024

l		के नाम	एवं राशि					
	लैन : 609107510466672 (1) हितेश जगदीश प्रसाद द्वारा डिलिसिअस फूड वेज एंड नॉन वेज (2) सचिन जगदीश प्रसाद (3) सोनम सुरेश चंद पता : मकान सं. 447, गली सं. 4, गुरुनानक पुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201204		के अनुसार [°] देय रा,					
आरक्षित मूल्य : रू. 3,19,80,000 /			धरोहर राशि जमा :	बोली वृद्धिशील मूल्य :				
(रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख अस्सी हजार			रु. 31,98,000 / — (रुपये इकतीस लाख अटुठानबे हज	रु. 3,19,800 / — गर मात्र) (रुपये तीन लाख उन्नीस हजार आठ सौ मात्र)				

और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक बोलीदातागण, आशीष कौशल, प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, से उनके मोबाइल नंबर 8527134222, ई—मेल : Ashish.Kaushal@grihashakti.com और श्री सुशील पाटिल से उनके मोबाइल नंबर ई-मेलः sushil.patil1@grihashakti.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

(रुपये इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)

स्थान : गाजियाबाद. दिल्ल<u>ी</u> दिनांक : 03-02-2024

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

(रुपये तीन लाख उन्नीस हजार आठ सौ मात्र)



RITCO LOGISTICS LIMITED

508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 Corporate Identity Number: L60221DL2001PLC112167

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DEC. 31, 2023

(In lakhs except EPS) Nine Month Quarter Ended Year Ended **Particulars** 31st Dec, 30th Sept. 31st Dec. 31st March, No. 2023 2023 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) Total income from Operations 23,892.32 23,463.98 68,142.14 75,114.62 Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and or 1,198.95 1,124.79 3,310.84 3,348.19 Extraordinary items#) 3,310.84 3.348.19 3 Net Profit/(Loss) for the period (After Exceptional and or Extraordinary 1,198.95 1,124.79 867.58 2,452.61 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) 821.29 2,396.32 for the period (After tax) and other comprehensive Income (After Tax) Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited 12,410.77 balance sheet of the previous year 6 Earning per share (of 10/- each) 3.36 9.80 9.94 3.53 3.36 9.80 9.94 (2) Dilluted

Additional information on standalone financial results is as follows:-

		Year ended				
Particulars	31st Dec, 2023 (Unaudited)	30th Sept, 2023 (Unaudited)	31st Dec, 2022 (Unaudited)	31st March, 2023 (Audited)		
Total Income Operations	23,892.32	23,463.98	19,458.06	75,114.62		
Profit before Tax	1,231.76	1,157.04	835.08	3,387.42		
Profit after Tax	897.31	853.47	646.88	2,471.93		
Earning per Share (of 10/- each)	20000000	72.000.00.00 07.000.00		31100.010000		
(1) Basic	3.67	3.49	2.64	10.10		
(2) Dilluted	3.67	3.49	2.64	10.10		

The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 02nd February, 2024 The above is an extract of the detailed format of financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI

(Listing obligations and disclosure requirement) regulations, 2015 for the quarter and nine month ended 31st December, 2023. The full of the quarter and nine month ended financial results are available on the websites of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com

Exchange and/or extra ordinary items adjusted in the statement of Profit and Loss in accordance with IND-AS rules, whichever

On behalf of Board of Directors

Man Mohan Pal Singh Chadha Chairman & Whole Time Dreictor

Place: Gurugram Date: 02.02.2024

NIIT LIMITED

Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Web: www.niit.com Email: investors@niit.com Corporate Identity Number: L74899HR1981PLC107123

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended December 31, 2023

(Rs. in Millions, except per share data)

		(Rs. in Millions, except per snare data)											
त बचाया। एक बयान		ei.	Standalone										
री दी।		Quarter ended			Period ended		Year ended	Quarter ended			Period ended		Year ended
दो फरवरी प्रोत एमवी और उसने रि नौकाओं को जहाज	Particulars	3 months ended December 31, 2023	Preceding 3 months ended September 30, 2023	Corresponding 3 months ended December 31, 2022	Year to date figures for the current period ended December 31, 2023	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2022	Previous year ended March 31, 2023	3 months ended December 31, 2023	Preceding 3 months ended September 30, 2023	Corresponding 3 months ended December 31, 2022	Year to date figures for the current period ended December 31, 2023	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2022	Previous year ended March 31, 2023
में गभी		Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated) (Refer note 4)	Unaudited (Refer note 4)	Unaudited (Restated) (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)	Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated) (Refer note 4)	Unaudited (Refer note 4)	Unaudited (Restated) (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)
ग़ई 📗	Total Income from Operations	851.75	814.06	931.87	2,291.28	2,812.02	3,412.50	319.89	417.00	427.28	997.63	1,322.75	1,574.46
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	183.46	114.31	148.82	333.25	192.64	169.15	148.01	106.11	21.21	273.26	(100.41)	(144.90)
T 3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	183.46	114.31	146.22	330.34	192.94	159.22	148.01	106.11	18.61	270.35	(100.11)	(154.83)
ਜ ਜ	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	151.43	107.21	167.92	284.37	208.07	111.17	138.29	104.02	40.33	257.98	(37.99)	(143.77)
गुक्त 🔼	Profit/(Loss) after tax from discontinued operations	(0.84)	(1.08)	(11.03)	(3.32)	(29.96)	(27.59)	(0.84)	(1.08)	(11.03)	(3.32)	(29.96)	(27.59)
क्रेया 📮	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	150.59	106.13	156.89	281.05	178.11	83.58	137.45	102.94	29.30	254.66	(67.95)	(171.36)
ग्वरी 7	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	164.84	112.80	170.93	273.66	192.10	97.29	143.64	109.92	28.97	257.55	(57.28)	(161.10)
	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	270.02	269.45	269.06	270.02	269.06	269.14	270.02	269.45	269.06	270.02	269.06	269.14
पूर्व 9	Reserves excluding revaluation reserves	2				0	9,689.94				12	12	9,628.85
ा सिंह ने रा उनके पीड़न के करने का ज्या।	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised, in Rs.) Continuing Operations - Basic - Diluted	1.08 1.06	0.80 0.79	1.14 1.12	2.04 2.01	1.15 1.13	0.45 0.44	1.03 1.01	0.77 0.77	0.30 0.29	1.91 1.89	(0.29) (0.29)	(1.07) (1.07)
कि दर्ज	Discontinued Operations - Basic - Diluted	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.08) (0.08)	(0.02) (0.02)	(0.22) (0.22)	(0.21) (0.21)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.08) (0.08)	(0.02) (0.02)	(0.22) (0.22)	(0.21) (0.21)
और में रसे	Continuing and Discontinued Operations - Basic - Diluted	1.07 1.05	0.79 0.78	1.06 1.04	2.02 1.99	0.93 0.91	0.24 0.23	1.02 1.00	0.76 0.76	0.22 0.21	1.89 1.87	(0.51) (0.51)	(1.28) (1.28)

- The above is an extract of the detailed format of guarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Regulations) Regulations. 2015 (as amended). The full format of the guarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 02, 2024.
- The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies, Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. Accordingly, the effect of demerger accounting is given in the financial results of previous periods in accordance with the accounting treatment prescribed in the Scheme and relevant accounting principles.

The Company has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items,

By order of the Board For NIIT Limited

Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director

Place: Gurugram Date: February 02, 2024

Total Income from Operations represent revenue from operations.

the allocations are approved by the Board

दलीलों पर सुनवाई चल रही थी।

